Magnum Ventures Limited

CIN: L21093DL1980PLC010492

Registered Office: HNO-MN01, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony,

New Delhi-110024 Phone: +91-11-42420015

E-mail: info@magnumventures.in Website: www.magnumventures.in

Date: 6th September, 2023

Department of Corporate Services	Department of Corporate Communications		
BSE Limited	National Stock Exchange India Limited		
Phiroze JeeJeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla		
Dalal Street, Fort	Complex, Bandra(E)		
Mumbai-400001	Mumbai-400 051		

Subject: Intimation of Newspaper advertisement of Corrigendum for Notice of AGM

Ref: Scrip Code BSE: 532896 NSE: MAGNUM

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to requirement of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper advertisement with respect to Corrigendum for Notice of 43rd Annual General Meeting, published in the following newspapers dated 6th September 2023:

- 1. Financial Express— English newspaper
- 2. Jansatta Hindi newspaper

Kindly take the same on your records.

Thanking You
Yours Sincerely,
For Magnum Ventures Limited



Aaina Gupta Company Secretary cum Compliance Officer

CUBICAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Regd. Office: 456, Aggarwal Metro Heights, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 CIN: L65993DL1990PLC040101, Ph.: 011-47057757, Email id: cubfinser@yahoo.com NOTICE

Notice is hereby given that the 33" Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company shall be held at on Thursday, 28" September, 2023 at 2:00 P.M through Video Conferencing/Other Audio Video Means (VC/ OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and 10/2022 dated 8th April 2020, 13" April 2020, 5" May 2020 and 28" December 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/ CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5" January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the 33" AGM and the Annual Report for the year 2022-23 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2023 ("Annual Report") has been sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Depository Participants or Company in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular. The requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual report to the members have been dispensed with vide MCA circulars and SEBI Circular. Members holding shares either in physical form or in dematerialization form, as on cut off date i.e. 21"

September 2023 may cast their vote electronically on the ordinary and special, as set out in the Notice of the 33" AGM through electronic voting system ("Remote e-voting") of CDSL

In connection with the Remote E-voting Facility and meeting through Video Conferencing/Other Audio Video Means (VC/ OAVM), we wish to notify the shareholders as under:

 a) The business, as set out in the Notice of AGM, may be transacted through remote e-voting as per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 or e-voting system at the AGM The shareholders holding shares as on 21" September, 2023, being the cut-off date, may participate in the

Remote E-voting exercise. The notice convening the AGM has been sent through email to those shareholders holding shares as on 21" September, 2023. Notice convening the said AGM shall be sent by e-mail to those persons becoming shareholders after 1" September, 2023, and holding shares as on 21" September, 2023 and whose e-mail ids are registered with the Company/ depositories. Such shareholders may also obtain the Login ID by sending a request to helpdesk evoting@cdslindia.com or to beetalrta@gmail.com or to cubfinser@yahoo.com mentioning his/her Folio No. / DP ID & Client ID.

Details of the manner of casting votes is mentioned in the Notice of AGM which is also displayed on the website of the Company at www.cubical90.com and shall be displayed on the website of the Remote E-

voting agency, Central Depository Services Limited, at https://www.evotingindia.com. Remote E-voting shall commence at 9:00 A.M. on 25" September, 2023 & shall be available only till 5:00 P.M. on 27th September, 2023 and shall not be available thereafter.

members may note that: i) The remote e-voting module shall be disabled after 5:00 p.m. (IST) or September 27, 2023. ii) The facility for electronic voting system, shall also be made available at the AGM, iii) Members attending the AGM, who have not cast their votes through remote e-voting, shall be able to exercise their voting rights at the AGM. The Members who have already cast their votes through remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their votes again at the AGM iv) a person whose name is recorded in the register of member or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on 21"September, 2023 being the cut off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

In case of any query/clarification/ grievances related to Remote E-voting/E-voting, shareholders may contact to Mr. Bhawendra Jha, Senior Manager, Beetal Financial Computer Services Private Limited 99, Madangir, behind LSC, New Delhi - 110062, Ph No: 011-29961281, e-mail : beetalrta@gmail.com

or may write to the CDSL E-voting team at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Mr. Mukesh Kumar Agarwal, Company Secretary in Practice, has been appointed as the Scrutinizer to

scrutinize the Remote E-voting/E-voting process. Kindly note that once you have cast your vote through E-voting, you cannot modify your vote.

The consolidated results of the Remote E-voting/E-voting at AGM, if any, which may be taken at the AGM, shall be announced by the Company within 48 hour of the AGM & displayed on the websites of the Company and of the Remote E-Voting Agency and also informed to Stock Exchanges.

Shareholders who have not yet registered their email addresses are requested to get their email addresses registered by following the procedure given below: For Members holding shares in physical form

please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cubfinser@yahoo.com/beetalrta@gmail.com

For the Members holding shares in demat form lease provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID) Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN

card). AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to cubfinser@yahoo.com/ beetalrta@gmail.com Or you can contact to your depository participant and register your Email id as per

For Cubical Financial Services Limited

Place: New Delhi Date: 05.09.2023

the process advised by them.

Ashwani Kumar Gupta



YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE SERVICES LIMITED (FORMERLY YATHARTH HOSPITAL AND TRAUMA CARE SERVICES PVT. LTD.) Read, Office: JA 108 DLF Tower A NA Jasola District Centre South Delhi DL 110025. CIN: L85110DL2008PLC174706; Email: cs@yatharthhospitals.com Ph.: +911206811236, Website: www.yatharthhospitals.com

NOTICE OF 16[™] ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

Notice is hereby given that the 16" (Sixteenth) Annual General Meeting of the members of "Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited" (Formely Yatharth Hospital & Trauma Care Services Private Limited) (CIN: L85110DL2008PLC174706) will be held on Thursday, September 28, 2023 at 02:00 P.M. through Video conferencing("VC")/ Other Audio Visual Means("OVAM"), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.

In accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations &, Disclosure requirement regulations), 2015 read with General Circular Nos.10/2022, December 28, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate affairs ("MCA Circular/s"), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2023/4 dated January 5th, 2023 Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), the Notice of AGM and Annual Report have been sent in electronic mode only to the members whose e-mail addresses are registered with the company/Depository Participants. The requirements of sending physical copy of the Notice of 16th (Sixteenth) Annual General Meeting (AGM) and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular/s. The electronic dispatch of Annual Report to the members has been completed on September 05, 2023. The said Annual Report including 16th AGM Notice is also available on the Company's website at www.yatharthhsopitals.com and on the website of stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM and referred in the Notice of AGM or Annual Report shall be made available electronically for inspection by members upon request to the Company by sending email at cs@yatharthhospials.com

In compliance with the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013

(hereinafter referred to as the 'Act') read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standards on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide remote e-voting to the members, to vote from the place other than venue of AGM ("remote e-voting"). The company is providing facility to members to cast their vote remotely, using electronic voting system("remote e-voting") for participation in AGM through VC/OVAM facility and remote e-voting during AGM through National Securities Depositories Limited ('NSDL'). The notes to Notice of AGM includes the procedure/instructions for attending AGM through VC/OVAM, remote e-voting by members holding shares through dematerialize mode and physical mode and for members who have not registered their email addresses. Members of the company under category of Institutional Shareholders are encouraged to attend and participate in the AGM through VC/OVAM and vote through remote e-voting. The members participating in the AGM through VC/OVAM facility shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM, if not voted through remote e-voting.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date Wednesday, September 20, 2023 shall be entitled to cast vote through remote e-voting or attend the meeting through VC/OVAM and cast vote at AGM. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on 'Cut-off date.' The remote e-voting shall commence on Monday, September 25, 2023 at 9:00A.M.(IST) and end on Wednesday, September 27, 2023 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote has been cast by the shareholder through remote e-voting, it cannot be changed. In case of voting through remote e-voting and also e-voting at the AGM, vote casted through remote e-voting will be considered final and e-voting at the AGM will not be considered.

Any member who acquires shares and become member after dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023 may obtain login id and password by sending email at e-voting@nsdl.co.in, helpdesk.evoting@cdslindia.com or instameet@linkintime.co.in & insta.vote@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175. However, you are registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing User-ID and

password for casting your vote. Mr. Saurav Upadhyay, a Practicing Company Secretary (Certificate of Practice No. 25283, Membership No. ACS 67860), Proprietor, M/s. Saurav Upadhyay & Associates has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote

Members seeking any information and intent to ask any question during the AGM may register themselves by mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at cs@yatharthhospitls.com. The Speaker Registration will be opened till Monday September 18, 2023. Member(s) holding shares at the cut-off date shall be entitle to register and participate at the AGM.

Member having any query/seeking any information are requested to write/send email to the company at least seven days in advance of AGM at cs@yatharthhospitals.com. Shareholders holding their shares in dematerialized mode and have not updated their KYC details are requested to register/update their email address, bank account details and other KYC details with the company's RTA i.e. Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. In case shareholders/ members have any queries regarding login/ e-voting, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175.

By order of the Board of Directors For Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited

Ritesh Mishra Company Secretary & Compliance Officer

||Place: Gurugram

Date: 06-09-2023

PARAG MILK FOODS LIMITED DR: LIS204PH2962PL000309 Regd: Office: Flat No.1, Plot Mo-19, Nev Rejenthus Soc., Shioqii Nagar, Pune - 431.055 8085555 Fax No. 823-4305569 Website: www.paragmithfoods.com i Sinail ID: Investan

NOTICE TO MEMBERS

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("VC/OAVM"), E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of Parag Milk Foods Limited ("the Company") will be held through VC / OAVM on Wednesday, September 27, 2023 at 04.30 p.m. (IST), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 together with MCA General Circular Nos. 14 & 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 ("MCA Circulars"), to transact the business set forth in the Notice calling the AGM. Members' participating through VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act,

Dispatch of Notice and Annual Report via e -mail:

PARAO

The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23, inter alia, containing the Audited Financial Statements, Board's Report and Auditor's Report have been sent on September 5, 2023 in electronic mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with their respective Depository participants ("Depository") and the Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("Kfintech") in accordance with the MCA and SEBI circulars. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.paragmilkfoods.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Manner of registering and updating email addresses:

Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/ update their email addresses with the relevant Depository Participants.

Member who have acquired shares after sending of the Notice of the AGM & Annual Report for the Financial Year 2022-23 through electronic means but before the cut-off date may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then the Member may use the existing User ID and Password, and cast their vote. All the shareholding of the Members of the Company as on date is in dematerialized form,

hence, the requirement of complying with the procedure / disclosures with regards to physical shareholders is not applicable to the Company.

Instruction for casting vote through e-voting:

The Company is providing to its Member's facility to exercise their right to vote at AGM by electronic means ("e-voting"). The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility. Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of NSDL on the dates mentioned herein below. Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be eligible to exercise their right to vote during such proceedings of the AGM. Further, Members may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote

have been sent to the members through email. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/ OAVM. The manner of remote e-voting and e-voting during AGM by Members holding shares in dematerialised mode and for members who have not registered their email address is provided in the Notice of the AGM.

Information and Instructions including details of user ID and password relating to e-voting

The remote e-voting facility will be available during the following period:

Cut-off Date for determining voting rights of Members			
Commencement of remote e-voting period	mote e-voting period Sunday, September 24, 2023, 9.00 a.m. (IST		
End of remote e-voting period	Tuesday, September 26, 2023, 5.00 p.m. (IST)		

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall forthwith be disabled by NSDL upon expiry of aforesaid period. A person, whose name is recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on close of business hours of Wednesday, September 20, 2023 ('Cut-Off date'), only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting thereat. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in

particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM. The result of e-voting will be declared within two working days of the conclusion of the Meeting and the same, along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the website of the Company and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com The result will also be simultaneously communicated to the Stock Exchanges. Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of SEBI Listing

Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023, (both days n case of any query regarding e-voting, Members may refer Frequently Asked Questions

(FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Prajakta Pawale, Assistant Manager, NSDL having address at Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at the designated e-mail ID at evoting@nsdl.co.in.

September 5, 2023

Mumbai

For Parag Milk Foods Limited

By Order of the Board of Directors

Devendra Shah Chairman DIN: 01127319

unitech

UNITECH LIMITED CIN: L74899DL1971PLC009720

Regd. Office: 6, Community Centre, Saket, New Delhi - 110017 Corporate Office: 13th Floor, Signature Towers, Tower-B. South City-1, Gurugram - 122007 Tele/Fax: 011-26857338

E-mail: share.dept@unitechgroup.com | Web: www.unitechgroup.com Notice of 52rd Annual General Meeting

Notice is hereby given that 52" Annual General Meeting (AGM) of the Members of

the Company will be held at 11:00 a.m. (IST) on Friday, the 29" day of September, 2023 through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular(s) issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular(s) issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') to transact the business as set out in the AGM Notice dated 29th August, 2023 pertaining to the financial year 2022-23. The information and instructions for Members attending the AGM through VC/OAVM are explained in Notes to the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of In accordance with the circulars of MCA and SEBI, the Notice of AGM and the

Annual Report for the financial year 2022-23 comprising Financial Statement, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached therewith have been sent by email to all those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company or with the Depository Participant(s), as on 25th August, 2023. The aforesaid documents are also available at the website of the Company www.unitechgroup.com and at the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and can be downloaded therefrom. The Notice of AGM is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with the provisions contained under section 108 of the Act read with relevant rules framed thereunder and regulation 44 of the Listing Regulations. the Company is pleased to provide its Members, facility to exercise their right to vote at the 52th AGM and the business may be transacted through remote e-voting services provided by NSDL. The facility of e-voting shall also be made available at the AGM. Members attending the AGM and who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM. The facility of remote e-voting as well as the e-voting system on the date of AGM will be provided by the NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The cut-off date for determining the eligibility of the Members to vote by remote evoting or e-voting at the AGM is 22rd September, 2023. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM and/or e-voting at the AGM.

The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. (IST) on Tuesday, 26° September, 2023 and ends on Thursday, 28" September, 2023 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the Members holding shares in physical mode or dematerialized mode and for the Members, who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company, is provided in the Notice of AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 22" September, 2023, may follow the same instructions for remote evoting/ e-voting at the AGM as mentioned in the Notice of AGM, however, if the Member is already registered with NDSL for remote e-voting, then he can use the existing Login ID/ User ID and Password for casting the vote through remote evoting or e-voting at the AGM. Detailed procedure for obtaining Login ID/UserID and password is also provided in the Notice of the AGM.

The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM. NOTICE is hereby given that pursuant to section 91 of the Act and regulation 42 of

the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday the 23rd day of September, 2023 to Friday the 29th day of September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 52rd AGM of the Company. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name,

postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number ('PAN'), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc. (a) For shares held in physical form: to the Company's RTA in prescribed Form

ISR-1 and other relevant forms pursuant to SEBI Master Circular SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated 11th July, 2023 available on the Company's website at www.unitechgroup.com.

(b) For shares held in electronic form: to their Depository Participant only and not to the Company's RTA. 11.In case of any grievances connected with voting by electronic means or any

queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022-48867000 and 022-24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in.

For Unitech Limited (Anuradha Mishra)

Company Secretary

KINTECH RENEWABLES LIMITED Regd. Office: Kintech House, 8, Shivalik Plaza, Opp. AMA, IIM Road,

Ahmedabad Gujarat 380015

Corporate Office: Unit No. 705 GDITL Tower Plot No. B-8 Netaji Subhash Place. Pitampura, Delhi -110034

Corporate Identity Number: L46102GJ1985PLC013254 Tel.: 91-11- 9205556113 Email: cskintechrenewables@gmail.com Website: www.kintechrenewables.com

NOTICE TO THE MEMBERS FOR THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 38th AGM of the Company will be held on Saturday, September 30, 2023 at 1:00 P.M. through VC facility, as per the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [*SEBI (LODR) Regulations"] read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 14/2020, 17/2020, 02/2021 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 respectively and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue. n compliance withthe relevant SEBI and MCA Circulars, the Notice of the 38th AGM and Annual Report of the

Company for the Financial Year that ended on March 31, 2023, along with login details for joining the 38th AGM through VC facility including e-voting will be sent only by e-mail to all those Members, whose e-mail addresses are already registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP"). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 38th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular(s). Members can join and participate in the 38th AGM through VC facility only. The instructions for joining the AGM are

provided in the Notice. Members participating through VC facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 38th AGM and the Annual Report will also be made available on Company's website (www.kintechrenewables.com), Stock Exchange' websites (www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com) The Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members to

cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the 38th AGM. Detailed instructions for remote e-voting are provided in the said Notice. The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by NSDL The remote e-voting period commences on September 27, 2023 (10:00 A.M.) and ends on September 29, 2023 (05:00 P.M.). During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Saturday, September 23, 2023, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through VC / OAVM shall be counted for reckoning the guorum under section 103 of the Act

Members who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of 38th AGM, Annual Report and login details for joining the 38th AGM through VC facility including e-voting by sending a request to M/s MCS Share Transfer Agent Limited, Registrar and Share Transfer Agent at mcsstaahmd@gmaill.com or to the Company at cskintechrenewables@gmail.com, by providing their name, folio number/DP ID & Client ID, client master or copy of consolidated account statement (in the case of demat holding), copy of share certificate - front and back (in the case of physical holdings), self- attested scanned copy of the PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card in support for registering e-mail address.

n case of demat holding, please contact your DP and register email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your Depository Participant. Any person who acquires shares and becomes Member of the Company after the date of electronic dispatch of

Notice of 38th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Saturday, September 23, 2023, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 38th AGM or sending a request at evoting@nsdl.co.in. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the

Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. The Notice of AGM and Annual Report for financial year 2022-23 will be sent to members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

> Kintech Renewables Limited Sachin Kumar

For and on behalf of

Date: September 5, 2023

Place: Delhi

Company Secretary M. No.: A61525

DCE Matie

MAGNUM VENTURES LIMITED CIN: L21093DL1980PLC010492 Regd. Office: HNO-MN01, Hub and Oak E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 Tel: +91-11-42420015 E-mail: info@magnumventures.in

Corrigendum to the Notice of 43[™]AnnualGeneral Meeting

Website: www.magnumventures.in

The Corrigendum is being issued in continuation of the Notice dated 21" August 2023 for the 43" Annual General Meeting (AGM) of the Company, which is to be held on Wednesday, 20 September 2023 through Video Conferencing (VC). The Shareholders of the Company are

requested to take note off the corrections as appearing with respect to Agenda/Item no. 8 to the Notice and respective Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 which is available on (http://www.magnumventures.in/pdf/Corrige ndum-to-Notice-of-43rd-AGM.pdf). This Corrigendum is also available

on Company's website at www.magnumventures.in and website of BSE Limited at www.bseindia.com and NSE Limited at www.nseindia.com All other contents of the Notice of the 43"

Annual General Meeting remains same as before. For Magnum Ventures Limited Sd/-

Aaina Gupta Date: 05/09/2023 Company Secretary Place: Ghaziabad

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of

transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ADLINE CHEM LAB LIMITED Registered Office: 904, 9th Floor, Shapath-I Complex, Opp. Raipath Club Nr. Madhur Hotel, S. G. Highway, Bodakdev, Ahmedabad - 380054, India Tel No.: 91-9227714587; E-mail: info@kamronlabs.in; Website: www.kamronlabs.com, CIN: L24231GJ1988PLC010956

PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement is issued by

Kunvarji Finstock Private Limited ('Manager to the Offer'), for and on behalf of Mr. Hemant Amrish Parikh ("Acquirer") pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ['SEBI (SAST) Regulations'], in respect of the Open Offer to acquire 15,21,000 (Fifteen Lakhs Twenty One Thousand Only) Equity Shares of ₹ 10/- each of Adline Chem Lab Limited ('Target company' or 'TC') representing 26% ('Twenty-Six Percent') of the Fully Paid-Up Equity Share Capital and Voting Capital, payable in Cash. The Detailed Public Statement ('DPS') with respect to the aforementioned Open Offer was made on May 24, 2023, in Financial Express (English), Financial Express (Gujarati) and Jansatta (Hindi). Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

Offer Price: The Offer is being made at a Price of ₹ 5.25/- (Five Rupees and Twenty Five Paisa

Only) per Equity Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price. 2. Recommendations of the Committee of Independent Directors: A Committee of

Independent Directors of the TC ("IDC") published its recommendation on the offer on September 5, 2023, in Financial Express (English), Financial Express (Gujarati) and Jansatta (Hindi). The IDC is of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations, 2011. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI Takeover

The Letter of Offer ('LoF') was mailed on August 31, 2023, to all the Public Shareholders of the Target Company, who's E-Mails IDs are registered and physical copies were dispatched on August 31, 2023, to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares and non-email registered shareholders as appeared in its Register of Members on August 24, 2023. ('Identified Date'). Please note that a copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance) is also available

on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Target Company (www.kamronlabs.com), the Registrar to the Offer (www.bigshareonline.com), the Manager to the Offer (www.kunvarji.com) and BSE (www.bseindia.com), from which the Public Shareholders can download/print the same. There are currently no outstanding convertible instruments to be converted into Equity

Shares of the Target Company at a future date. There has been no merger/de-merger or spin off in the Target Company during the past three years.

Instructions for Public Shareholders: A. In case of Equity Shares are held in Physical Form:

The Public Shareholders who are holding Physical Equity Shares and intend to participate in the Open Offer shall approach the seller broker. The seller broker should place bids on the Designated Stock Exchange platform with relevant details as mentioned on physical shares certificate(s). The selling broker shall print TRS generated by the exchange bidding system TRS will contain the details of the order submitted folio no., certificate no., Dist. no., the number of Equity Shares etc. and such Equity Shareholders should note that the Physical Equity Shares will not be accepted unless the complete set of documents as mentioned or page 26 of the Letter of Offer is submitted. Acceptance of the Physical Equity Shares for the Open Offer shall be subject to verification by the Registrar & Transfer Agent (RTA). On receip of the confirmation from the RTA, the bid will be accepted otherwise it would be rejected and accordingly the same will be depicted on the Exchange platform.

. In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form: Eligible person(s) may participate in the offer by approaching their respective selling broker and tender shares in the Open Offer as per the procedure mentioned on page 26 of the letter of offer.

 Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer In case of non-receipt of the LoF, the Public Shareholders holding the Equity Shares may

download the same from the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Target Company (www.kamronlabs.com), the Registrar to the Offer (www.bigshareonline.com), the Manager to the Offer (www.kunvarji.com) and BSE (www.bseindia.com). Alternatively, they may PA Date participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all Shareholder(s), stating name, address, the number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, Folio No. certificate no., Dist.no., no (In case of physical shares) number of equity shares tendered and other relevant documents as mentioned on page 28 of

. The Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on May 31, 2023, in accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. All observations from SEBI via letter number SEBI/HO/CFD-RAC-DCR2/P/OW/2023/34005/1 dated August 22, 2023, which was received on August 22, 2023, have been duly incorporated in the Letter of Offer, according to Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

. The financial information of Target Company based on the Audited financial year ended March 31, 2023, March 31, 2022, March 31, 2021 and March 31, 2020 are as follows: (Amt. in Lakhs)

Profit & Loss Statement	Audited Financial Statement Year			
		ended on	March 31,	
	2023	2022	2021	2020
Revenue from Operations	-	73.66	632.82	659.13
Other Income	99.51	18.43	0.34	2.3
Total Income [A]	99.51	92.09	633.16	661.47
Total Expenditure (Excl. Depreciation and Finance Cost) [B]	79.67	103.28	655.95	(992.28
Profit Before Exp. Item, Depreciation, Finance Cost and Tax [C=A-B]	19.84	(11.19)	(22.79)	(330.81
Depreciation	8.75	35.01	102.34	42.2
Finance Cost	-	0.74	3.27	2.0
Profit / (Loss) on Exceptional Item	11.09	114.14	0.06	24.3
Exceptional Items	434.5	0	0	
Profit/ (Loss) Before Tax	(423.41)	67.20	(128.34)	(350.75
Provision for Tax	-	(4.58)	-	25.7
Profit/ (Loss) After Tax	(423.41)	71.78	(128.34)	(376.46

Profit/ (Loss) After Tax	(423.41)	71.78	(128.34)	(376.46)
Balance Sheet Statement	Audited Financial Statement Year ended on March 31,			
	2023	2022	2021	2020
Sources of Funds				
Equity Share Capital	585.00	585.00	585.00	585.00
Reserve & Surplus	(741.75)	(320.16)	(391.95)	(263.61)
Deferred Tax Liabilities (Net)	-		4.59	4.59
Long Term Provisions	29.09	30.01	35.84	30.45
Short Term Borrowings	128.79	131.67	250.15	285.45
Trade Payable	4.52	44.70	23.63	55.65
Other Current Liabilities	0.47	1.60	31.12	35.86
Short term Provisions	0.05	14.63	25.00	25.09
Total	6.17	487.45	563.37	758.48
Application of Funds				
Property, Plant & Equipment	-	-	-	11.69
Intangible Assets	-	443.26	364.13	466.47
Long Term Loans & Advances	-	0.88	0.90	3.52
Inventories	-	25.90	39.22	109.17
Trade Receivable	-	7.14	158.28	143.08
Cash and Cash Equivalents	6.17	4.69	(15.71)	5.23
Short Term Loans & Advances	-	5.15	6.12	8.94
Other Current assets	-	0.44	10.43	10.38
Total	6.17	487.45	563.37	758.48

Audited Financial Statement Year ended Other Financial Data on March 31. 2023 2022 2021 2020 Dividend (%) Earnings Per Share (₹) (7.24)(6.45)(1.23)(2.19)Net worth (156.75)264.84 193.05 321.39 Return on Net worth (%) NA 27.10% 66.48% 117.14% Book Value Per Equity Share 2.68 4.53 3.30 5.49 There are no directions subsisting or proceedings pending against the Target Company

and its Promoters, including existing selling promoters, under the SEBI Act and the regulations made thereunder or by any other regulator. Further, no penalties had been or have been levied by SEBI/ RBI or any other regulatory body against the Target Company and its Promoters, including existing promoters except, as informed by Target Company, as mention below: Date of Default Fine Amount Status

ı	R2F Notice	Details			
	15-June-2018	Delay in submission of Financial Results for the quarter ended March, 2018.	Rs. 1,58,500/-	Paid by target company on 01-Oct-2018	
	12-Feb-2019	Non-appointment of Compliance officer for the quarter ended December, 2018.	Rs. 92,000/-	Paid by target company on 27-Aug-2019	
	14-May-2019	Non-appointment of Compliance officer for the quarter ended March, 2019.	Rs. 44,000/-	Paid by target company on 27-Aug-2019	
	02-Nov-2020	Delay in submission of Financial Results for the quarter ended June, 2020.	Rs. 35,000/-	Waived by BSE Limited in view of Covid pandemic period	
11 There have been no other material changes in relation to the Offer since the date of the					

There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on May 17, 2023, same as otherwise disclosed in the DPS and

As of date, to the best of the knowledge of the Acquirer, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in the Letter of Offer. The Open Offer will be implemented through Stock Exchange Mechanism made

available by the Stock Exchanges in the form of a Separate Window ('Acquisition Window') as provided under the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 as amended via SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016. The Acquirer has through whom the purchases and settlement of the Open Offer shall be made during the Tendering period. The detailed procedure for tendering of shares is given in point no. -9 "Procedure for Acceptance and Settlement" of the Letter of Offer.

Pursuant to the Open Offer and the transactions contemplated in the Agreement, the Acquirers and/or the PACs would be in compliance with Regulation 38 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI LODR Regulations") read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") i.e., the public shareholding shall not fall below

Original Schedule

Date***

Revised

Schedule

Revised Schedule of Activities: ACTIVITY

;	PA Date	May 17, 2023 Wednesday	May 17, 2023 Wednesday		
	Publication of DPS in the newspapers	May 24, 2023 Wednesday	May 24, 2023 Wednesday		
١	Filing of the DLoF with SEBI	May 31, 2023 Wednesday	May 31, 2023 Wednesday		
r S	Last date for a competing offer*	June 14, 2023 Wednesday	June 14, 2023 Wednesday		
	Identified Date**	June 23, 2023 Friday	August 24, 2023 Thursday		
	Date by which LOF will be dispatched to the shareholders	July 3, 2023 Monday	August 31, 2023 Thursday		
	Last date by which the committee of the independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Public Shareholders for this Offer	July 6, 2023 Thursday	September 5, 2023 Tuesday		
	Last date for revising the Offer Price / Offer Size	July 7, 2023 Friday	September 6, 2023 Wednesday		
	Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	July 10, 2023 Monday	September 7, 2023 Thursday		
	Date of expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	July 21, 2023 Friday	September 21, 2023 Thursday		
	Date by which all requirements including payment of consideration would be completed	August 4, 2023 Friday	October 9, 2023 Monday		
	Post offer Advertisement	August 11, 2023 Friday	October 16, 2023 Monday		
	*Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of th				

Target Company as of such date to whom the Letter of Offer would be sent by Email / Post. It is clarified that all the shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except the Acquirer, Sellers and promoter and promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.

The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations 2011. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

KUNVARJI FINSTOCK PRIVATE LIMITED

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

Driven By Knowledge

Date: September 6, 2023

Place: Ahmedabad

Registered Office: Block B, First Floor, Siddhi Vinayak Towers, Off S.G. Highway Road, Mouje Makarba, Ahmedabad-380051 Corporate Office: 05, Ground Floor & 1208-20, 12th Floor, Summit Business Bay, Opp. PVR Cinema, Near Western Express Highway - Metro Station, Andheri(E), Mumbai - 400093 CIN: U65910GJ1986PTC008979 Contact Person: Mr. Jiten Patel/ Mr. Prasann Bhatt

Tel No.: +91 22 69850000 | 91 79-6666 9000 Email: mb@kunvarji.com SEBI Reg. No.: INM000012564 For and on behalf of the Acquirer

Mr. Hemant Amrish Parikh Acquirer

financialexp.epapr.in

Place: Greater Noida West

Date: 05.09.2023

e-voting process in a fair and transparent manner.

New Delhi

एसआरएम एनर्जी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 21 बसंत लोक कॉम्पलेक्स, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

एजीएम की सूचना दिनांक 14 अगस्त, 2023 में निर्घारित कामकाज के निष्पादन के लिए कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरूवार, 28 सितम्बर, 2023 को प्रातः 08.00 बजे एक्जीक्यूटिव बलब, डॉली फार्म्स एंड रिसॉट्र्स, 439, ग्राम शहुरपुर, पी.ओ. फतेहपुर बेरी, नई विल्ली–110074 र आयोजित की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर 2022 के क्रम में वर्ष 2020, 2021 और 2022 में इसी संबंध में जारी किए गए पहले के परिपन्नों औ मारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) का परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और पूर्वोक्त वर्षों में जारी पहले परिपत्रों के संदर्भ में, कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सूचना व वार्षिक रिपोर्ट उन सभी शेयरधारकों को, जिनके ई-मेल पते कंपनी/िंडपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत हैं, उन्हें

एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bsaindia.com जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, र डाउनलोड किया जा सकता है।

अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ उसके अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसरण में एतदद्वारा यह सुचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतू कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 22 सिवम्बर, 2023 से गुरूवार, 28 सिवम्बर, 2023 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2013 वं नियम 20 के अनुसरण में कंपनी ने अपने सदस्यों (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप दोनों में शेयर घारण करने वालें) को सेन्टल ढिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाओं के द्वारा एजीएम की सचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने की सविधा उपलब्ध कराई गई है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के लिए शेयरधारकों की योग्यता के निर्धारण के रिकार्ड हेत् कट-ऑफ तिथि 21 सितम्बर, 2023 है।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण और जिन्होंने कंपनी / आरटीए के पास ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे सेबी परिपन्न सं. सेबी/एवओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी -पीओरी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के संदर्भ में अपना केवाईसी पूरा करके इसे पंजीकृत करा सकते हैं। सदस्यगण निम्नलिखित लिंक http://www.srmenergy.in/Horne InvestorRelations द्वारा निर्देशों का पालन करके केवाईसी फार्म ढाउनलोड कर सकते हैं। ढिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अपना ई-मेल पता/अन्य विवरण अपडेट करने के लिए अपने

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है. (बी) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का डिस्पैच करने का कार्य (केवल ई-मेल के माध्यम से) 05 सितम्बर, 2023 को प्रारंभ किया गया है, (सी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग सोमवार, 26 सितम्बर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को साथं 5.00 बजे समाप्त होगी, (डी) 27 सितम्बर, 2023 (ब्धवार) को सायं 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने की अनुमति नहीं होगी, (ई) 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.smenergy.in/ और सीढीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर उपलब्ध है और (एफ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एवं विधि के लिए सदस्यगण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के (पेज नं. 64 से 68) में शामिल निर्देशों को भली-भांति पद लें या सीढीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/Help.isp को देखें।

तिथि अर्थात् 21 सितम्बर, 2023 (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि। तक शेयर धारण करता है. वह वार्षिक रिपोर्ट में ई-बोटिंग के लिए वर्णित निर्देशों का पालन कर सकता है। एजीएम में भौतिक प्रारूप में वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में चपरिश्वत ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वे ही बैठक में भौतिक माध्यम से वोट दे पाएंगें, ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने वाले सदस्य भी बैठक में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। आगामी वार्षिक आम बैठक के लिए श्री सतीश कुमार निरंकार, एस. के. निरंकार एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा वोटिंग से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरि. प्रबंधक

युवुरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई-400013 से संपर्क करें या ई—मेल helpdesk.evoting@cdslindis.com पर मेल भेजें या टोल फ्री नं. 1800 22 55 33 पर कॉल करें। निदेशक मंडल के आदेश से

(पंकज गुप्ता) कंपनी सचिव ICSI M. No. A63088

स्थान: आब् रोड

दिनांक: 06.09.2023

CRANEX LIMITED

Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Corporate Office: 57/1, Industrial Area, Site-IV, Sahibabad (U.P.)-201010 E mail: investors@cranexltd.com, Website: http://www.cranexltd.com BSE Script Code: 522001 ISIN: INE608B01010

NOTICE OF THE 48TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the Forty-Eighth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of

Cranex Limited ('Company') will be held on Saturday, September 30, 2023 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in compliance with applicable provision of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circula No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ("SEBI Circular") (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars') without the physical presence of the Members at the AGM, to shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

Notice is also hereby given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 that the business as set out in the Notice of Annual General Meeting may be transacted by electronic voting and that the Company is pleased to offer e-voting facility to the members to cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facility

In compliance with the relevant Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for FY 2022 have been sent on 5th September, 2023 to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/depository Participant(s). The aforesaid document: are also available on the Company's website at www.cranexltd.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com respectively, and on the website of NSDL AT

of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of

mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of AGM and is also available on the website of the Company www.cranexltd.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, respectively, and or the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. evoting.nsdl.com The remote e-voting facility will be available during the following voting period:-

Commencement of e-voting | From 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, 27th September, 2023 End of e-voting Up-to 5.00 p.m. (IST) on Friday, 29th September, 2023

The Company has fixed Saturday, 23rd September, 2023 as the "CUT-OFF DATE" for determining

the eligibility of the members to vote by electronic means or at the Annual General Meeting. n case, a person has become a member of the Company after dispatch of notice of Annua General meeting but on or before the cut-off date for e-voting i.e. Saturday, 23rd September he/she may write to NSDL on the e-mail id evoting@nsdl.co.in requesting for the User id and Password. If the member is already registered with NSDL for e-voting, the member can use the existing User Id and Password for casting his/her vote through remote e-voting

instructions for remote e-voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members who have not registered their email-ids, are requested to register the same, for receiving all communications including Annual Report, Notice etc. form the Company electronically as per process mentioned below. Upon successful registration of email id, the login ID and password for e-voting shall be shared on the member's registered email id. In case, members have any query regarding e-voting, Members may send a request to

evoting@nsdl.co.in for procuring user ID and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM Notice or call on toll free number .: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 For Cranex Limited

Place: New Delhi

Renu Company Secretary Membership No.: A29426

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED CIN: L67120DL1993PLC052256

Regd. Office: 103, Palco House, 2162/T-10, Main Patel Road New Delhi 110008 E-mail:csvirtualeducation@gmail.com; Website: www.virtualeducation.in, Phone: 011-41522143 NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING.

Limited (the Company) is scheduled to be held on Wednesday, the September 27, 2023 at 01:00 P.M at Maharaja Banquets, A-1/20A, Paschim Vihar, Rohtak Road, New Delhi-110063, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM The Notice of AGM, Annual Report for the financial year ended March 31, 2023 and remote e-voting

details have been sent in electronic mode to all the members whose email ID are registered with the Company/RTA/Depository Participants. The date of completion of email of the notices to the

register your email ID for obtaining annual report for FY 2022-23 and login details for e-voting: Physical Holding: Send a request to Registrar and Share Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services (P) Ltd. at *Info@skylinerta.com* providing folio number, name of the shareholder. scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar card) for registering email address. Demat Holding: Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as

per the process advised DP

These documents are also available on Company's website www.virualeducation.in for download by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Security Depository Limited (NSDL) through their portal www.evotingindia.com to enable

dematerialized form, as on the cut-off date of **Thursday, September 21, 2023**, may cast their vote by remote E-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut of date i.e. Thursday, September 21, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to RTA Skyline Financial Services (P) Ltd at *Info@skylinerta.com*, However, if the members are already registered with NSDL 'or remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

Virtual Global Education Limited, 103, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road New Delhi 110008 at Email: csvirtualeducation@gmail.com.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the September 20, 2023 to Wednesday, the September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

Date: 05.09.2023

मॉडर्न डेनिम लिमिटेड पंजीकत कार्यालय: तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आबू रोड, जिला- सिरोही-307510

फोन: 02974-228044, CIN:- L17124RJ1977PLC001758 ईमेलः denim.modern@gmail.com, वेबसाईटः www.moderndenim.com

वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना एतदद्वारा सृचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 45वीं वार्षिक साधारण सभा गुरूवार दिनांक 28 सितम्बर, 2023 को दोपहर: 01.00 बजे पंजीकृत कार्यालय तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आबू रोड, जिला- सिरोही-307510 में

आयोजित की जायेगी जिसमें 45वीं एजीएम की सूचना में निर्देशित विषयों को निष्पादित किया जावेगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुरूप एजीएम की सचना के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिबंदन उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिया गया है जिन्होंने कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/ रजिस्ट्रार और शेयर टांसफर एजेंट के साथ अपनी इंमेल आईडी पंजीकृत की है। कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें एजीएम के आयोजन और ई-वोटिंग निर्देशों की सूचना कंपनी की बेबसाइट www.moderndenim.com पर उपलब्ध है तथा बीएसई लिमिटेड की बेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की बेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन 6, सितम्बर, 2023 को इंमेल के माध्यम से भेज दी है।

एतद्द्वारा यह भी सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 (1) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम 2015 के नियमन 42, के प्रावधानों के अनुसरण में कम्मनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्मनी की शेवर अंतरण पुस्तकें 22 सितम्बर, 2023 से 28 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनिमय 2015 के नियमन 44 के प्रावधानों के अनुसरण मे कम्पनी के सभी प्रस्ताव जो वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में उल्लिखित हैं पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। सदस्य सभा के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य जगह से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-बोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतपत्रों के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा मे मतदान करने की सुविधा उसी को दी जायेगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं दिया है। रिमोट ई-वोटिंग का समय 25 सितम्बर, 2023 को प्रातः 9 बजे से शुरू होकर 27 सितम्बर, 2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त हो जायेगा। रिमोट ई-वोटिंग मॉडवृल 27 सितम्बर, 2023 को शाम 5.00 के बाद ई-मतदान के लिए निष्क्रय कर दिया जायेगा। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के बाद भी वार्षिक साधारण सभा में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में

फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कम्पनी ने सदस्यों के पंजीकृत ईमेल पते पर युजर आईडी और ई-वोटिंग के लिए पासवर्ड भेज दिया है। जिस किसी सदस्य ने ईमेल आईडी RTA / कम्पनी को प्रदान नहीं की है और अन्य कोई व्यक्ति, जो वार्षिक साधारण सभा की सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनता है और cut-off-date जो की 21 सितम्बर, 2023 है को अंश रखता है, एजीएम के नोटिस में बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, और रिमोट ई-बोर्टिंग द्वारा मतदान के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ई- वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मौज़दा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

रिमोट ई- वोटिंग सुविधा से संबन्धित किसी भी प्रश्न/ शिकायत के लिए सदस्य www.evotingindia.com पर अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का उल्लेख कर सकते हैं या सौरभ कुम्भट अधिकृत व्यक्ति को मॉडर्न डेनिम लिमिटेड, तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आब् रोड, जिला- सिरोही-307510 ईमेल: denim.modem@gmail.com फोन: 02974-228044 में सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड के आदेश से

> मॉडर्न डेनिम लिमिटेड के लिए (हर्षिता हेतवाल) कंपनी मचिव

CCL INTERNATIONAL LIMITED CIN: L26940DL1991PLC044520

Regd. Office: M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033 Phone No.: 011-42142258

E-mail: cmpsec@cclil.com **Website:** www.evocreteindia.com NOTICE FOR 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members

of the CCL International Limited ('Company') will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM'), to transact the businesses as set out in the Notice of the 32nd AGM, dated 30th August, 2023, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and Rules made thereunder and the SEBI (LODR) Regulations, 2015 ("SEBI") read with the Circular No. 14/2020 dt. April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dt. April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dt. May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dt. January 13, 2021, General Circular No. 10/2021 dt. June 23, 2021 and General Circular No. 20/2021 dt. December 8, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular dated May 12, 2020, Circular dated January 15, 2021, May 13, 2022 and January 05, 2023 ("SEBI Circular") issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI/ Circular") (collectively referred to as 'relevant circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue.

Members will be able to attend the AGM through VC/OVAM. Members participating through the VC/OVAM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In terms of MCA circular and SEBI circular, the Notice of 32nd AGM setting out the ordinary and special business to be transacted at the meeting and the Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, together with Audited Standalone Financial Statement for the Financial Year 2022-23 and the Reports of Directors, Auditors thereon etc. has been sent by electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories/RTA and the email process has been completed. The requirements of sending physical copy of the Notice of 32nd AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars/ Notification(s). The aforesaid documents are also available on the company website at www.evocreteindia.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members hold shares in physical mode and who have not update their e-mail address with the Company are requested to update their e-mail address by sending e-mail request

Members holding shares in dematerialised mode are requested to registered/update their e-mail addresses with the relevant Depository Participants. The Notice of the AGM contains the instructions regarding the manner, in which shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time AGM. After updation of email ID, members may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

The documents referred to in the Notice of 32nd AGM are available electronically for inspection without any fees by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of 32nd AGM. Members desiring to inspect statutory registers and other relevant documents should send an email to the company at cmpsec@cclil.com. Instructions for Remote e-voting prior to the AGM and e-voting during the AGM

In compliance with the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013 and Rule 20 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or enactment(s) thereof for the time being in force}, and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, and Secretarial Standard of General Meeting ("SS-2") issued by the Company Secretaries of India, the Company is providing facility to all its members to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of 32nd AGM by electronic means (e-voting) by using electronic voting system provided by National Securities Depository Limited (NSDL) for remote e-voting prior to the AGM.

The remote e-voting period starts on Wednesday, 27th September, 2023 (9.00 a.m. IST) and ends on Friday, 29th September, 2023 (5.00 p.m. IST). Remote e-voting shall be disabled by NSDL at 5:00 p.m. on 29th September, 2023 and members shall not be allowed to vote through remote e-voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. For the electronic voting instruction, shareholders may go through the instruction in the Notice of 32nd AGM.

Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2023 only shall be entitled to avail

the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM;

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e Saturday, 23rd September, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

d. A member may participate in the 32nd AGM even after exercising his right to vote through remote e- voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. The facility for voting electronically will be made available at the 32nd AGM to the

members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-Further notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013

read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days

The Company has appointed Ms. Richa Gulati, Practicing Company Secretary (CP No. 11283), as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and evoting at AGM in a fair and transparent manner.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, at the designated email id-evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 22 24994545, +91 22 24994559. In case of any queries, member may also contact Mr. Pradeep Kumar, Company

Secretary through e-mail www.cmpsec@cclil.com or at telephone No. 0120-4214258. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of AGM and in particular, instructions/manner for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during the AGM. For and on behalf of the Board of Directors

For CCL International Limited

Company Secretary & Compliance Officer M.No. A50972 स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

पंजीकृत कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद–201206 (यू.पी.) CIN: L17100UP2016PLC084473

ई—मेलः spaceincubatrics@gmail.com, वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com दूरभाष:- 01232 - 261288

वार्षिक साधारण सभा की सचनाः

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लिमिटेड के सदस्यों की 7वीं वार्षिक साधारण समा शनिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को मध्यान्ह 01:30 बजे पंजीकृत कार्यालय पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद-201206 (य.पी.) पर, वार्षिक एजीएम के नोटिस दिनांक 14 अगस्त 2023 में वर्णित सामान्य व विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए होगी। एजीएम की बैठक की सूचना व्याख्यात्मक विवरण सहित एवं 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट सेमेत पृथक रूप से इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिनके ईमेल एड्रेस कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। अन्य सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, "उन्हें एजीएम नोटिस की प्रति भौतिक रूप से स्वीकृत माध्यम द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर भेजी जा चुकी है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सुचना कम्पनी की वेबसाईट www.spaceincubatrics.com और सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के लिए कंपनी ने सेंटल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज लि0 ('सीडीएसएल') के साथ व्यवस्था की है। इस संबंध में सदस्य कृपया ध्यान दें:

(i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, जिसे कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन)

- नियम 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के साथ पठित एवं सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन 2015 के नियम 44 के अनुपालन में वार्षिक साधारण समा के नोटिस में वर्णित कार्यवाही को इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से संपंन्न कराया जा सकता है। कंपनी को अपने सभी शेयर धारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता है। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम स्थल पर वोटिंग हेत् शेयर होल्डरों के निर्धारण हेत् कट-आफ तिथि शनिवार, 23 सितम्बर 2023 है।
- जिन सदस्यों के पास कट-आफ तिथि को कागजी अथवा डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं, वे सीडीएसएल के इलैक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम, जो https://www.evotingindia.com है, पर एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी इलैक्ट्रानिक माध्यम से अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं। (iii) रिमोट ई—वोटिंग 27 सितम्बर 2023 (बुधवार) को 10:00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और 29 सितम्बर 2023 (शुक्रवार) को 5.00 बजे साय पर समाप्त हो
- जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा 29 सितम्बर 2023 (शुक्रवार) को 5.00 बजे साय पर बंद कर दी जाएगी और उपरोक्त तिथि व समय के उपरांत वोटिंग की छूट नहीं होगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार अपनी वोट डाल देने के बाद सदस्य को उसमें बदलाव का अधिकार नहीं होगा। (iv) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सचना प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात शेयर प्राप्त करके कंपनी का शेयरधारक बनता है एवं कट-आफ तिथि 23 सितम्बर, 2023 (शनिवार) को शेयरधारक हो, वे ई-वोटिंग के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट

(आरटीए) से या सीडीएसएल से निम्न संपर्क से हासिल कर सकते हैं:

दुरभाष संख्याः 022-23058738 व 022-23058542-43, ई-मेल आई डी:

- helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com (v) मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (vi) कोई भी सदस्य अपने मताधिकार का रिमोट ई-वोटिंग द्वारा इस्तेमाल करने के उपरांत भी एजीएम में शामिल हो सकता है। लेकिन उसे एजीएम में अपना वोट पुनः डालने की छूट नहीं होगी।

(vii) केवल वही सदस्य एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा अथवा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ लेने के अधिकारी होंगे जिनके नाम कट-आफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा रखे जाने वाले बेनिफिसियल आनर्स के रजिस्टर में दर्ज होंगे।

कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के नोटिस को www.spaceincubatrics. com/wp-content/uploads/2023/07/NOTICE_7TH-AGM_SPACE.pdf ₹ भी डाउनलोड कर सकते हैं।

किसी भी जानकारी के लिए सदस्य एफएक्यू (FAQ) और सदस्यों के ई-वोटिंग युजर मैनुअल को देख सकते हैं। जो www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध है। रिमोर्ट ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री आनन्द तिरोडकर, श्री देबोश्री चौधरी, सीडीएसएल, ट्रेड वर्ल्ड, फिरोज जीजीबाई टॉवर्स, 17वां तल दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001 से अधिकृत ई-मेल आईडीजः helpdesk.evoting@cdslindia.com या दूरभाष संख्याः (022) 23058615, (022) 23058634 फैक्स: (022) 23002043 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में और हरित पहल के

एक भाग के रूप में, कंपनी सदस्यों को नोटिस/दस्तावेजों/वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्टानिक रूप में सर्विसिंग को सक्षम करने के लिए अपना ई-मेल पता उपलब्ध कराने/अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए अनुरोध कंपनी या आरटीए को भेजा जाना चाहिए और डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजा जाना चाहिए।

वार्षिक साधारण सभा उपरोक्त सभा स्थल पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा जारी एसओपी/एडवाईजरी/नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल मसलन फेस मास्क, हैंड सेनेटाईजेशन आदि का कडाई से पालन करते हुए होगी। वास्ते-स्पेस इंक्यबैटिक्स टैक्नालॉजीस लि0

ह0/- (खुशबू सिंघल)

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स.सं.: ए25992

REDTAPE

रेडटेप लिमिटेड सीआईएन: U74101UP2021PLC156659

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर s, सेक्टर 90, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर,

उत्तर प्रदेश -201301, भारत फोन: +91 120 6994444 l +91 120 6994400

तिथिः ०५ सितम्बर, २०२३

स्थानः मुरादनगर

इंमेलः compliance@redtapeindia.com वेबसाइटः www.redtape.com

रतदृद्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सचीबद्धता विनियम') के सभी लागू प्रावधानों तथा कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') हारा जारी सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल. 2020. 13 अप्रैल. 2020. 5 मर्ड. 2020. 28 सितंबर. 2020. 31 दिसंबर. 2020. 13 जनवरी 2021, 14 दिसंबर, 2021, 5 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 ('एमसीए परिपन्न') के अनुसार एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय निष्पादित करने के लिए रेडटेप लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 2सरी (दुसरी) वार्षिक आम बैटक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को 1130 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्ञअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सदस्य वीसी/ओएवीएम www.cvoting.nsdl.com के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे और वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गणन की जायेगी।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, विश्वीय वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की डलेक्टॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट. मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) ('आरटीए')/हिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.redtape.com और स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') (रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-बोटिंग और/या एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के लिए निर्देश: ई-वोटिंगः अधिनियम, सेबी सुचीबद्धता विनियमों और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्ये को इलेक्टॉनिक माध्यम से एजीएम में पारित होने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट दूरस्थ ढंग से ('रिमोट ई-वोटिंग') डाल सकते | हैं। कंपनी ने एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में

एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। इसके अलावा, एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-चोटिंग के माध्यम से एजीएम में मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा, शेयरधारक रिमोट ई-चोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम

सदस्यों को एनएसडीएल के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। अधिनियम और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक विवरण यहां दिए गए हैं:

5 सितम्बर, 2023

2 रिमोट ई-वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि तथा समय 29 सितम्बर, 2023 को 0900 बने (भा.मा.स.) से 3 रिमोट ई-बोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय 29 सितम्बर, 2023 को 1700 बजे (भा.मा.स.) तक शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 4 कट-ऑफ तिथि इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं 29 सितम्ब, 2023 को 1700 वजे (भा.मा.स.) के बाद सुश्री साक्षी मेहता

करने वाले उत्तरदावी व्यक्ति का सम्पर्क विवरण प्लॉट नं. 08, सेक्टर-90, नोएडा-201301 ई-मेल आईही : compliance@redtapeindia.com दुरभाष नं. : +91 120 6994444 . है-वोटिंग से संबंधित यजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित जानकारी और निर्देश सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से

भेज दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया कपया ध्यान दें कि जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम में वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार

होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेवर प्राप्त करता है और एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और

कट-ऑफ तिथि चानी 23 सितंबर, 2023 को शेयर धारण करता है. वह नोटिस के साथ भेजे गए निर्देशों में उल्लिखित तरीके से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। रिमोट ई-बोटिंग या एजीएम के दौरान ई-बोटिंग या वीसी/ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के संबंध में किसी

वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्कोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोक्षर परेल, मुंबई - 400 013, निर्दिष्ट ईमेल आईडी - evoting@nsdl.co.in पर से संपर्क कर सकते हैं जो शिकायतों का समाधान करेंगी। रेडटेप लिपिटेड के लिए

MODI SPINNING & WEAVING MILLS CO. LTD.

Regd. Office: Modinagar-201201 (U.P.) CIN No. U17111UP1946PLC001428

E-MAIL ID: mswmcoltd@gmail.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act. 2013, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 27th September, 2023 to 28th September,

By order of the Board, For Modi Spinning & Weaving Mills Co. Ltd. Dated: 05.09.2023 Rajendra Sharma Place:

Modinagar Dy. Company Secretary

''फार्म एनसीएलटी, 3ए'' (देखें नियम 35) कम्पनी याचिका नं. 69/एएलडी/2023

याचिका की सुचना

विरोला भुज प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 21/68, फ्रीगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश-282004, भारत द्वारा 29 अगस्त, 2023 को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण के संशोधन के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के अंतर्गत एक याचिका की गई है तथा उक्त याचिका पर राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज के समक्ष 22.9.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई है। उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छक व्यक्ति आवेदक के अधिवक्ता के पास उनके नाम एवं पते के साथ उनके या उनके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित उनके आशय की सचना इस तरह से भेजें ताकि वह आवेदक के अधिवक्ता के पास आवेदन की सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व में पहुंच जाये। यदि वे याचिका का विरोध करना चाहें. तो विरोध के कारण अथवा उनके शपथ पत्र की प्रति उस सचना के साथ प्रस्तुत करें। उसके लिये निर्धारित शुल्कों के भगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छक किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा

निखिल कुमार वर्मा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वीकेसी लीगल, डी-38, एलजीएफ (एल/एस) साउथ एक्स्टेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049

मेग्नम वेंचर्स लिमिटेड सीआईएन: L21093DL1980PLC010492 पंजीकृत कार्यालयः एचएनओ-एमएन 01,

हब और ओक, ई —14, लोअर ग्राउंड फ्लोर डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली—110024 फोन : +91-11-42420015 ईमेल : info@magnumventures.in वेबसाईट: www.magnumventures.in 43 वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में शुद्धिपत्र

हिद्धिपत्र कंपनी की 43 वीं वार्षिक आम बैठक

एजीएम) के लिए 21 अगस्त 2023 के नोटिस के संदर्भ में जारी किया जा रहा है, जो बुधवार, 20 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित किया जाना है । कंपनी के शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता। है कि वे नोटिस की कार्यसूची / मद संख्या 8 के संबंध में दिखाई देने वाले सुधारों और

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण, जो| (http://www.magnumventures.in/pdf/Corrige) ndum-to-Notice-of-43rd-AGM.pdf) ਧਾ उपलब्ध है, को नोट करें । यह शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट www.magnumventures.in और में बीएसई

www.nseindia.com पर एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट परभी उपलब्ध है। 43वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस की अन्य सभी

लिमिटेड www.bseindia.com और

विवरण पहले की तरह ही है।

मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/-तिथि : 05.09.2023 आइना गुप्ता कंपनी सचिव स्थान : गाजियाबाद

MPS

याचिका की प्रति उपलब्ध कराई जायेगी।

एमपीएस फर्मा लिमिटेड (पूर्व में एडविक लेबोरेटरीज लिमिटेड) सीआईएनः एल७४८९९एचआर१९९४पीएलसी०३८३००

पंजी. कार्यालय एवं कारखानाः 138, रोज-का-मेओ, औद्योगिक क्षेत्र, सोहना,

जनपद—मेवात—122103 (हरियाणा)

कॉर्पोरेट कार्यालयः 703, अरुणाचल भवन 19, बाराखंभा रोड,कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 **फोनः** 011-42424884, 43571040-45, **फैक्सः** 011-43571047

दूरमाषः 0124-2362471, ईमेलः : info@mpspharmaa.com, वेबसाइटः www.mpspharmaa.com वार्षिक आम बैठक, बही समापन और दूरस्थ ई-मतदान की सूचना तदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 पूर्वाह 09.30 बजे की सुचना दिनांकित 29 अगस्त, 2023 में निर्धारित व्यवसाय का लेन—देन किया जाएगा। एजीएम की सुचना और वित्त वर्ष 2022—2023 की

वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को 05 सितंबर, 2023 को अनुमत माध्यम से भेज दिया गया है। सेबी (सचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 42 और कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वेरचित लागू नियमावली के साथ उक्त अधिनियम की धारा 91 के अनुपालानुसार, एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की अंश अंतरण बहियां और सदस्यों की पंजिका जो है वह एजीएम के उददेश्य हेत् **शनिवार, 23 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 29 सितंबर,** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने नेशनल क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के मंच पर दूरस्थ ई—मतदान सुविधा के माध्यम से एजीएम सूचना दिनांकित 29 अगस्त 2023 में वर्णितानुसार समस्त व्यवसायमुलक मदों का लेन—देन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा उपलब्ध कराई है। दररथ

–मतदान का प्रारंभ 29 सितंबर, 2023 को प्रातः 09.00 बजे होगा तथा समापन 28 सितंबर, 2023 को सायं 5.00 बजे होगा। उक्त तिथि वं समय के पश्चात् दूरस्थ ई–मतदान करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। दूरस्थ ई–मतदान अनुदेशों के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट info@mpspharmaa.com पर और एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की गई है। कंपनी के सदस्यगण जो कि कट—ऑफ तिथि अर्थात शक्रवार. 22 सितंबर 2023 के अनसार अंशों को धारण किए हए हैं वे www.evoting.nsdl.com पर एनएसडीएल के दरस्थ ई–मतदान मंच के माध्यम से इलेक्टॉनिक तरीके से अपना मतदान क ... तकते हैं अथवा बैलेट पत्र के माध्यम से सामान्य बैठक में मतदान कर सकते हैं। सदस्यगण दूरस्थ ई–मतदान के पश्चात् भी सामान्य बैठक में भागीदारी कर सकते हैं परंत वे बैठक में मतदान करने के लिए ग्राह्य नहीं होंगे। और यदि तब भी मतदान किया जाता है त वह अवैध होगा और दरस्थ ई—मतदान के माध्यम से किया जानेवाला मतदान विचारित होगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम सुवना में मुद्रितानुसार ई–मतदान से संबंधित अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। यदि सदस्यों को दरस्थ ई–मतदान से संबंधित कोई रन पूछना है अथवा उनकी इस संबंध में कोई शिकायत है तो वे www.evoting.nsdl.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स (एफएक्य) तथा दरस्थ ई–मतदान पस्तिका का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in प एक ईमेल लिख सकते हैं। अंशधारकगण जो हैं वे अपनी ईमेल आईडी के पंजीकरा / अद्यतन तथा अन्य विषयों के लिए रजिस्टार अथवा अंश अंतरण अभिकर्ता (आरटीए). मै. एमएएस सर्विसेज लिमिटेड. संपर्क नं. 011–26387281–83 अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरीज कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2023 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि यदि वह व्यक्ति रिमोट इवोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकत है तो मौजदा यजर आईडी

और पासवर्ड का उपयोग मतदान करने के लिए कर सकता है। सदस्यगण जो कि भौतिक प्रारूप में अंशों को धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि वे सेबी परिपत्र स सेबी / एलएडी--एनआरओ / जीएन / 2018 / 24 दिनांकित 08 जून 2018 के अनुपालनानुसार अपने अंशों को अभौतिक रूप में परिवर्तित कर दें। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पते/पैन/केवाईसी विवरण का पंजीकरण / अद्यतन नहीं किया है, उनसे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड ("आरटीए") के साथ निर्घारित फॉर्म आईएसआर—1 और अन्य प्रासंगिक रूपों में विवरण पंजीकृत/अद्यतन करने का अनुरोध किया जाता है।16 मार्च,2023 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईऑर/2023/37 के अनसार. कंपनी न भौतिक रूप में शेयर रखने वाले उन शेयरघारकों को केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजा है जो उनके संबंधित फोलियो

में पंजीकृत नहीं हैं। इसके अलावा शेयरघारक कंपनी की वेबसाइट www.mpspharmaa.com पर भी संबंधित फॉर्म देख सकते हैं डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल पता अपडेट करें। कृते एमपीएस फार्मा लिमिटेड (पूर्व में एडविक लेबोरेटरीज लिमिटेड) हस्ता./-

NIIT

स्थानः सोहना, हरियाणा

दिनांकः 6 सितंबर 2023

एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड MANAGED पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं0. 85, सेक्टर 32, TRAINING इंस्टीट्वूशनल एरिया, गुरूकाम-122001, हरिवामा, भारत SERVICES CIN: U72200HR2001PLC099478

फोन: +91 (124) 44293000: फीक्स: +91 (124) 4293333 वेबसाइटः www.niitmts.com; ईमेलः investors@niitmts.com 21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

'एजीएम') बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को सुबह 10:00 बजे (भा.मा.स) में एजीएम की सूचना में नेर्घारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो साघन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिमृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं)

एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 21वीं वार्षिक आग बैठक

विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपन्न सं0. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 और अन्य परिपन्न और सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एक्जो/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 (यहां के बाद संयक्त रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुसरण में एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेजी गई है जिनके ई—मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत हैं । सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता कथित परिपत्रों के माध्यम से इटा दी गई है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट इलेक्टॉनिक माध्यम से मेजने का कार्य 05 सितम्बर, 2023 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त कथित सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nimms.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध है।

एजीएम में निष्पादित किये जाने वाले मद से संबंधित दस्तावेज और एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी को ई—मेल investors@niimts.com पर अनुरोध भेजने पर सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्टोंनिकली उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम की घारा 108 के प्रावघानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20. समय-समय पर यथासंशोधित और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस–2) के अनपालन में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा कही से भी अपना वोट रिमोट ई—वोटिंग ('रिमोट ई—वोटिंग') के माध्यम से देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कंपनी अपने सदस्यों को वीसी /ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई—वोटिंग') के उपयोग द्वारा रिमोटली अपना वोट देने और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा उपलब्ध करा रही है। इस संबंध में प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में संलग्न नोट्स में दिये गये हैं। इंस्टीट्यूशनल /कॉर्पोरेट शेयरधारकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने एवं भाग लेने तथा अपना वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं देते हैं तो एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे। कट—ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 को शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण रिमोट ई−वोटिंग के माध्यम से वोट देने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने और एजीएम में वोट देने के लिए हकदार होंगे। सदस्यों में मतदान के अधिकार, कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 (प्रातः 9:00 बजे भा.मा.स) प्रारंम होगी और मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 (साथ 5:00 बजे भा.मा.स) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल इटा लिया जाएगा। रिमोट ई—वोटिंग द्वारा एक बार प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। यदि रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में भी ई-वोटिंग

ई—वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई सदस्य सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार 20 सितम्बर, 2023 को शेयर धारित करते हैं, वे <u>evoting@nsdl.co.in</u> अथवा <u>investors@nitmts.com</u> पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। लेकिन, यदि वे रिमोट ई-वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत है तो अपना वोट

से वोट दिया जाता है तो केवल रिमोट ई-वोटिंग को ही अंतिम माना जाएगा और एजीएम में

करने के लिये वे अपने वर्तमान युजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। श्री मिलन मलिक मैसर्स मिलन मलिक एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 9888) को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

सदस्यगण जो एजीएम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से अपना नाम, ढिमेट खाता / फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र कंपनी के पास investors@niltmts.com पर भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्पीकर रजिस्ट्रेशन शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 तक खुला रहेगा।

ऐसा व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य के रूप में है, वहीं पंजीकरण और एजीएम में भागीदारी के लिए योग्य होगा। शेयरघारक जिन्होंने अपना केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपोंजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डिपोंजिटरीज के पास अपना ई-मेल पता एवं केवाईसी

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में ई-वोटिंग एवं भागीदारी के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के ढाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरघारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का

अवलोकन करें या टोल फ्री नं. 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल करें या

evoting@nsd.co.in पर अनुरोध मेजें या एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स

कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, पर सम्पर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेश से कृते एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड

स्थानः गुरूग्राम दिनांकः 05 सितम्बर, 2023

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

Place: Delhi

CIN: L17100DL1985PLC303047 टेलीफोन नंo: 011-41403205 | वेबसाइट: www.srmenergy.in | ईमेल: info@srmenergy.in एतदद्वारा सुबना दी जाती है कि:

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-मेल) से भेज दी गई है। वित्त वर्ष 2022—23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट http://www.smenergy.in/Home/AnnualReports

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कंपनी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण

डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 👣 36वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय क

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त सूचना/वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बनता है और कट-ऑफ

(सीढीएसएल) सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन कृते एसआरएम एनर्जी लिमिटेड

CIN: L74899DL1973PLC006503

20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI transact the business as set out in the AGM notice. Members attending the AGM through VC/OAVM

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Registe

Instructions for e-voting and e-voting during AGM The manner of remote e-voting and voting at the AGM by Members holding shares in a dematerialized

Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the

दिनांकः 05.09.2023

स्थानः नई दिल्ली

Date: 06.09.2023

BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of Virtual Global Education

Shareholders is 05th September, 2023. In case you have not registered with the Company/Depository, please follow below instructions to

the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Sunday, September 24, 2023 (09:00 am) and ends on Tuesday, September 26, 2023 (05:00 pm). No E-Voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in

vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Apoorv Srivastava, Practicing Company Secretary (Membership No, FCS 12734 & CP No, 21063), has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to E-voting may be addressed to Ms. Shivani Jindal, Company Secretary


> For and on Behalf of Virtual Global Education Limited Shivani Jindal **Company Secretary & Compliance Officer**

Date: September 05, 2023

Place: Delhi







दिनांकः 05.09.2023

स्थानः नोएडा, उत्तर प्रदेश

में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1 ई-मेल द्वारा नोटिस भेजने की पूर्णता तिथि

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से सम्बन्धित शिकायतों का निपटान

कंपनी सचिव

साक्षी मेहता

इस्ता./-

www.readwhere.com